



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या- 623 राँची, शुक्रवार,

17 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2021

संख्या-15/सा०अव०-03-02/2021का.-8489--भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-20-25-56-पर्व-1, दिनांक-8 जून, 1957 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट, 1881) 26-1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, वर्ष 2022 में संलग्न अनुसूची-1 में अंकित पर्व/अवसरों पर राजपत्रित अवकाश घोषित करते हैं ।

2. वर्ष 2022 में संलग्न अनुसूची-2 में अंकित तिथियों को कार्यपालक आदेश के तहत झारखण्ड राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय बन्द रहेंगे ।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-41/2/98 बी०ओ० ॥ दिनांक-09 अगस्त, 2002 एवं पत्रांक-1/22/2012-बी०ओ०-॥ दिनांक- 09 जनवरी 2013 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट, 1881)-26-1881 की धारा 25 के

स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल वर्ष 2022 में सम्पूर्ण राज्य में संलग्न अनुसूची-3 में अंकित बैंक वार्षिक लेखा बंदी अवकाश घोषित करते हैं।

- टिप्पणी:-** i. चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
- ii. राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी।
- iii. अनुसूची-3 में उल्लिखित बैंक लेखा वार्षिक बन्दी सरकारी अधिष्ठानों/कार्यालयों पर लागू नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,
सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

वर्ष 2022 के लिए झारखण्ड राज्य में एन०आई०एक्ट,1881 के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रिगेरियन कैलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1943/1944)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ - 06	बुधवार	1
2.	महाशिवरात्रि	01 मार्च	फाल्गुन - 10	मंगलवार	1
3.	होलिका दहन	17 मार्च	फाल्गुन - 26	गुरुवार	1
4.	होली	18 मार्च	फाल्गुन - 27	शुक्रवार	1
5.	सरहुल	04 अप्रैल	चैत्र - 14	सोमवार	1
6.	अम्बेदकर जयंती/महावीर जयंती	14 अप्रैल	चैत्र - 24	गुरुवार	1
7.	गुड फ्राईडे	15 अप्रैल	चैत्र - 25	शुक्रवार	1
8.	ईद- उल- फितर	03 मई	वैशाख - 13	मंगलवार	1

9.	बुद्ध पूर्णिमा	16 मई	वैशाख - 26	सोमवार	1
10	मुहर्रम	09 अगस्त	श्रावण - 18	मंगलवार	1
11.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण - 24	सोमवार	1
12.	जन्माष्टमी	19 अगस्त	श्रावण - 28	शुक्रवार	1
13.	करमा पूजा	06 सितम्बर	भाद्र - 15	मंगलवार	1
14.	महाअष्टमी	03 अक्टूबर	आश्विन - 11	सोमवार	1
15.	महानवमी	04 अक्टूबर	आश्विन - 12	मंगलवार	1
16.	विजयादशमी	05 अक्टूबर	आश्विन - 13	बुधवार	1
17.	दीपावली	24 अक्टूबर	कार्तिक - 02	सोमवार	1
18.	सूर्य षष्ठी प्रातः अध्य	31 अक्टूबर	कार्तिक - 09	सोमवार	1
19.	गुरुनानक जयंती	08 नवम्बर	कार्तिक - 17	मंगलवार	1
	कुल दिन				19

टिप्पणी:- राम नवमी-10 अप्रैल, ईद-उल-जुहा (बकरीद)-10 जुलाई, महात्मा गाँधी का जन्म दिवस-02 अक्टूबर, मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिवस)-09 अक्टूबर, सूर्य षष्ठी डाला छठ (सायं अध्य)-30 अक्टूबर एवं क्रिसमस-25 दिसम्बर को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण उक्त तिथि को अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है, तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है, के लिए उक्त तिथि को अवकाश रहेगा ।

अनुसूची-2

वर्ष 2022 के लिए झारखण्ड राज्य में कार्यपालक आदेश के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1943/1944)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	सोहराय	13 जनवरी	पौष - 23	गुरुवार	1
2.	मकर संक्राति	14 जनवरी	पौष - 24	शुक्रवार	1
3.	बसंत पंचमी	05 फरवरी	माघ - 16	शनिवार	1
4.	संत रविदास जयन्ती	16 फरवरी	माघ - 27	बुधवार	1
5.	हूल दिवस	30 जून	आषाढ़ - 09	गुरुवार	1
6.	रथ यात्रा	01 जुलाई	आषाढ़ - 10	शुक्रवार	1
7.	विश्व आदिवासी दिवस	09 अगस्त	श्रावण - 18	मंगलवार	1
8.	रक्षा बंधन	11 अगस्त	श्रावण - 20	गुरुवार	1
9.	गणेश चतुर्थी	31 अगस्त	भाद्र - 09	बुधवार	1
10.	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर	भाद्र - 26	शनिवार	1
11.	शारदीय नवरात्र/कलश स्थापन	26 सितम्बर	आश्विन - 04	सोमवार	1
12.	गोर्वधन पूजा	25 अक्टूबर	कार्तिक - 03	मंगलवार	1
13.	भातृ द्वितीय (भैयादूज)/चित्रगुप्त पूजा	26 अक्टूबर	कार्तिक - 04	बुधवार	1
14.	भगवान बिरसा मुण्डा जयंती/राज्य स्थापना दिवस	15 नवम्बर	कार्तिक - 24	मंगलवार	1
	कुल दिन				14

टिप्पणी:-सुभाष चन्द्र बोस जयंती-23 जनवरी, मजदूर दिवस-01 मई एवं दशहरा (महासप्तमी)-02 अक्टूबर को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है, तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ रविवार सामान्य कार्यदिवस हो, वहाँ उक्त तिथि को अवकाश रहेगा ।

अनुसूची-3

वर्ष 2022 में एन०आई०एक्ट,1881 के तहत बैंक लेखा बन्दी अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1943/1944)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	बैंक लेखा की वार्षिक बन्दी	01 अप्रैल	चैत्र - 11	शुक्रवार	1
	कुल दिन				01
